



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 68 राँची, गुरुवार, 12 माघ, 1939 (श०)

1 फरवरी, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

4 दिसम्बर, 2017

संख्या-5/आरोप-1-172/2017 का.-11855-- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के पत्रांक-13460, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 द्वारा भ्र०नि० ब्यूरो पलामू थाना कांड सं०-27/17, दिनांक 12 सितम्बर, 2017, धारा-7/13(2) भ्र०नि० अधिनियम, 1988 के अभियुक्त श्री अशोक कुमार सिन्हा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विशुनपुरा, गढ़वा को परिवादी श्री लाल बहादुर सिंह, विशुनपुरा, गढ़वा से 10,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए भ्र०नि० ब्यूरो, पलामू के धावादल द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार कर दिनांक 13 सितम्बर, 2017 को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है ।

2. अतः श्री सिन्हा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि 13 सितम्बर, 2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है ।

3. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद ये कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का कार्यालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में योगदान देंगे ।

4. निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
